



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 73) पटना, सोमवार, 21 जनवरी 2013

मुख्य अभियंता-2 पटना
ग्रामीण कार्य विभाग
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश

14 जनवरी 2013

सं0 212—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.07, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, 2 गया (नवसृजित कार्य अंचल, औरंगाबाद) के पत्रांक-225 दिनांक 14.03.2012 द्वारा प्राप्त सुश्री पुनम कुमारी, पिता-स्व0 सियाशरण रविदास पूर्व प्रारूपक कोटि-11 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, नवादा (नवसृजित कार्य प्रमंडल, रजौली) का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जॉच के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति नवादा का पत्रांक-43 (मु0) दिनांक 07.03.12 का बैठक की कार्यवाही प्रति एवं ज्ञापांक 09 (मु0), दिनांक 21.01.12 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में सुश्री पुनम कुमारी, ग्राम-बियाबामी पो0-मघड़ा, थाना-दीपनगर जिला-नालन्दा को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन तृतीय वर्ग निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। सुश्री पुनम कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत में वर्ग तीन के निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 सियाशरण रविदास के आश्रित परिवार के सदस्यों भरण-पोषण का दायित्व सुश्री पुनम कुमारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।

5. अगर सुश्री पुनम कुमारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

7. सुश्री पुनम कुमारी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना का पत्रांक-23 स्था0/दिनांक 10.01.13 द्वारा परीक्षा फल की सत्यता का जाँच करा लिया गया है।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
ई0 अच्छे लाल राम,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 73-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>